



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 17-03-2022

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-03-17 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-03-18	2022-03-19	2022-03-20	2022-03-21	2022-03-22
वर्षा (मिमी)	2.0	3.0	5.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	24.0	25.0	24.0	24.0
न्यूनतम तापमान(से.)	11.0	12.0	12.0	11.0	10.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	80	80	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	35	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	120	120	130	130	100
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	3	4	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

17 से 21 मार्च के दौरान, 17 से 19 मार्च को कहीं-कहीं बूँदा-बाँदी या हल्की वर्षा हो सकती है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 24.0 से 25.0 व 10.0 से 12.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से पूर्व-दक्षिण-पूर्व व पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 23 से 29 मार्च के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम तथा अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल के लिए, 5 से 11 मार्च के दौरान एनडीवीआई 0.2 से 0.45 के बीच है। यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम से अच्छी है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से अर्थात् 10 फरवरी से 9 मार्च के दौरान नैनीताल जिले में हल्की सूखे की स्थिति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

17 से 19 मार्च को कहीं-कहीं बूँदा-बाँदी या हल्की वर्षा हो सकती है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सिंचाई को स्थगित कर दें और मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर ही सिंचाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	सरसों की फसल की कटाई एवं मड़ाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।
चावल	पर्वतीय क्षेत्रों में माह के द्वितीय पखवाड़े में चेतकी धान (असिंचित) की बुवाई शुरू करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	घाटी क्षेत्रों में यदि टमाटर की पौध तैयार हो गई हो तो संस्तुति के अनुसार पौध रोपण करे। मध्यम ऊँचे पर्वतीय घाटी क्षेत्रों, में टमाटर के बीज की बुवाई पॉलीहाउस या पॉलीनेट के भीतर करे।
शिमला मिर्च	घाटी क्षेत्रों में यदि शिमला मिर्च की पौध तैयार हो गई हो तो संस्तुति के अनुसार पौध रोपण करे। मध्यम ऊँचे पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में, शिमला मिर्च के बीज की बुवाई पॉलीहाउस या पॉलीनेट के भीतर करे।
बैंगन	मध्यम ऊँचे पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में, बैंगन के बीज की बुवाई पॉलीहाउस या पॉलीनेट के भीतर करे।
सेम की फली	सिंचित घाटी क्षेत्रों में सब्जी फ्रासबीन किस्म अर्का कोमल या कन्टेण्डर की बुवाई करे।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओं के बैठने का स्थान समतल होता चाहिए ताकि उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो तथा इस समय नवजात पशुओं के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दें। बैठने का स्थान समतल ना होने पर पशु खड़ा रहेगा जिससे वह तनाव में आ सकता है और उत्पादन क्षमता प्रभावित होगी। भैंसों के बछड़े जिनकी उम्र 2 माह के आस-पास हो गई है, उनको कृमिनाशक दवा दें।
गाय	गाय के बछड़े जिनकी उम्र 2 माह के आस-पास हो गई है, उनको कृमिनाशक दवा दें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	पुष्पन के समय बगीचो की जुताई न करें तथा आवश्यकतानुसार बागो की सिंचाई करे। पुष्पन के समय कोई भी कीटनाशी दवा का प्रयोग ना करे। क्योंकि इससे परागण में भाग लेने वाली मक्खियों के मरने का खतरा होता है।